



प्रेस नोट थाना जैतपुर जनपद आगरा

थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुये अवैध असलाहों की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह सहित अन्य सामान बरामद.....

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार चोरी, लूट, डकैती, आदि अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी बाह के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जैतपुर को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 25.06.2021 को गठित पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति व वाहन हेतु कान्हरपुरा पुलिया के पास चैकिंग/गश्त में व्यस्त थी। इस दौरान एक मोटर साइकिल पल्सर पर 03 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, रुकने का इशारा करने पर मोटर साइकिल सवार व्यक्ति सकपका गये एवं मोटर साइकिल पीछे मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेर-घोट कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद देशी पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद मोबाइल, 01 अदद मोटर साइकिल बरामद हुयी।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया हम लोग इन अवैध असलाहों को तस्करी कर मध्य प्रदेश से लाये हैं और बेचने के लिये आगरा जा रहे थे। बिक्री के रुपयों को हम लोग आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. पवन पुत्र रामनरेश निवासी महुआशाला थाना खेडाराठौर जनपद आगरा
2. दीपक कुशवाह पुत्र मान सिंह कुशवाह निवासी नीमगाँव थाना वरासो जनपद भिण्ड म0प्र0
3. बन्टी कुशवाह पुत्र बीरेन्द्र कुशवाह निवासी द्वारिका नगर भिण्ड म0प्र0

बरामदगी का विवरण –

01. 02 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस
02. 01 अदद देशी पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस





03. 02 अदद मोबाइल

04. 01 अदद मोटर साइकिल

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0स0 97/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट वनाम पवन उपरोक्त

02. मु0अ0स0 98/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट वनाम दीपक कुशवाह उपरोक्त

03. मु0अ0स0 99/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट वनाम वन्टी कुशवाह उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. थानाध्यक्ष श्री योगेन्द्रपाल सिंह थाना जैतपुर जनपद आगरा
2. उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना जैतपुर जनपद आगरा
3. है0का0 सत्यप्रकाश थाना जैतपुर जनपद आगरा
4. है0का0 राकेश कुमार थाना जैतपुर जनपद आगरा
5. है0का0 संजय कुमार थाना जैतपुर जनपद आगरा
6. का0 अवनीश कुमार थाना जैतपुर जनपद आगरा



मीडिया सेल जनपद आगरा।

